



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939  
No. 486] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/AGRAHAYANA 30, 1939

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

सं. विधि 42(3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं.145 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 171 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को नामतः जोड़ा जाएगा :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	पैरामीटर समूहों के लिए मान्यता
(1)	(2)	(3)	(4)
172.	केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आसाम बमुनीमैदान गुवाहाटी-781021 कामरूप (एम) आसाम	1. डॉ. आर. अहमद मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक 2. श्री उमेश चन्द दास वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक 3. श्री मृदुल देव अधिकारी वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक 4. श्री मनोज सैकिया वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक 5. डॉ. गौतम कृष्ण मिश्रा कार्यकारी पर्यावरण वैज्ञानिक	भौतिक, सामान्य, एवं गैर-मैटेलिक, धातुएं, कार्बनिक, सूक्ष्मजैवकीय, विष विज्ञानकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट और परिवेशीय वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञान संबंधी पैरामीटर्स

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

एस.पी. सिंह परिहार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./357/17]

#### पाद टिप्पणी:

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728(अ), दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये :

(1) का.आ. 838 (अ), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (अ) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (अ) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (अ) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (अ) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (अ) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(अ) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (अ) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(अ) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (अ) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (अ) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (अ) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. (अ) 336 दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (अ) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (अ), दिनांक 01.06.2001 और (16) का.आ. संख्या 532 (अ), दिनांक 01.01.2002, का.आ. संख्या 1168 (अ), दिनांक 01.06.2001, का.आ. संख्या 888 (अ), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)87, दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)87, दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)87, दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)87, दिनांक 01.05.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007 और विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2008, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.02.2008, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.04.2008, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2009, विधि/42(3)/87 दिनांक 15.01.2010, विधि/42(3)/87 दिनांक 20.09.2010, विधि/42(3)/87 दिनांक 27.01.2011, विधि/42(3)/87 दिनांक 31.01.2012, 14.08.2014, 10.03.2015, 11.12.2015, 07.03.2016, 03.08.2016 और 06.03.2017 एवं विधि/42(3)87 दिनांक 19.06.2017।

### CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2017

**No. Legal 42(3)/87.**— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 E, dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratories specified in column (2) of the table below as 'Environmental Laboratories' to carry out the functions entrusted to the Environmental laboratories under the said Act, and the rules made there under and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 171 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 19th June 2017, and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be added, namely:

Sl. No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
172.	Central Laboratory Pollution Control Board Assam, Bamunimaidam Guwahati-781021 Kamrup (M), Assam	1. Dr. R. Ahmed Chief Environmental Scientist 2. Sh. Umesh Chand Das Senior Environmental Scientist 3. Sh. Mirdul Dev Adhikari Senior Environmental Scientist	Physical, General and non metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, Hazardous waste and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micrometeorological parameters.

		4. Sh. Manoj Saikia Senior Environmental Scientist 5. Dr. Gautam Krishna Mishra Executive Environmental Scientist	
--	--	--	--

The Environmental Laboratory and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification.

S.P. SINGH PARIHAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./357/17]

**Foot Note:**

The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989 (E) , dated 17-11-87, (3) S.O. 489 (E) , dated 17-5-88, (4) S.O. 156 (E) , dated 24-2-89, (5) S.O. 846 (E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375 (E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97 (E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889 (E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452 (E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631 (E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336 (E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44 (E), date 15-1-2001, (15) S.O. 490 (E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532 (E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168 (E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888 (E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-9-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, Legal/42(3)/87, dated 15-4-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010, Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010, Legal/42(3)/87, dated 27-1-2011, Legal/42(3)/87, dated 31-1-2012, Legal/42(3)/87 14-8-2014, Legal/42(3)/87 10-03-2015, Legal/42(3)/87 11-12-2015, Legal/42(3)/87 07-03-2016, Legal/42(3)/87 03-08-2016, Legal/42(3)/87 06.03.2017 and Legal/42(3)/87 dated 19.06.2017